

# शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: छाण में 830 किलो मिलावटी मसाले और फैक्ट्री, गंगापुर में नकली घी बेचने वाले तीन विक्रेताओं की दुकानें सीज



चिकित्सा की विभाग की टीम ने छाण व गंगापुर में की कार्रवाई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सवाई माधोपुर की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फूड सेफ्टी अधिकारी विरेन्द्र कुमार ने खंडार ब्लॉक के छाण गांव में बड़ी कार्रवाई की है। चिकित्सा विभाग की टीम ने आईएमडी ट्रेडर्स मसाला फैक्ट्री में हल्दी, धनिया व मिर्च तैयार रखी हुई थी, जिनके तीन सैंपल लिए गए तथा 830 किलो मसालों व फैक्ट्री को सीज करने की कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के नेतृत्व में जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में विभाग की टीम ने जिले के खंडार ब्लॉक के छाण में कार्रवाई कर 830 किलो मिलावटी मसाला जब्त करने की कार्रवाई की है। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा आईएमडी ट्रेडर्स मसाला फैक्ट्री में हल्दी, धनिया व मिर्च तैयार रखी हुई थी, जिनके तीन सैंपल लिए गए। फैक्ट्री में कई वर्षों से मसालों का उत्पादन किया जा रहा है। फैक्ट्री के पास वैध लाइसेंस है। फैक्ट्री मालिक इस्लामुद्दीन के जिले में ना होने के कारण पुत्र शहजाद के समक्ष कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मसालों को जमीन पर फैला कर रखा हुआ था व 580 किलो हल्दी में चावल की किनकी मिलाई जा रही थी। 150 किलो धनिया में धनिया के डंठल व सरसों के डंठल का पाउडर मिलाया जा रहा था।

**गंगापुर में घी बेचने वालों पर भी कार्रवाई**

सवाई माधोपुर| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सवाई माधोपुर की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत गंगापुरसिटी में कार्रवाई करते हुए तीन नकली घी विक्रेताओं की दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के नेतृत्व में जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी

अधिकारी विरेन्द्र कुमार ने जिले के गंगपुरसिटी में तीन जगहों पर कार्रवाई की। तीनों ही फर्म घी के व्यापारियों की है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sawai-madhapur/news/830-kg-of-adulterated-spices-and-factory-in-chhan-shops-of-three-vendors-selling-fake-ghee-in-gangapur-seized-130112399.html>